



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, अगस्त 22—अगस्त 28, 2010, शनिवार/श्रावण 31—भाद्र 6, 1932  
No. 35] NEW DELHI, AUGUST 22—AUGUST 28, 2010, SATURDAY/SHRAVANA 31—BHADRA 6, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय  
(राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय)

नागपुर, 23 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 138.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर में समूह 'ग' के पदों की भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर समूह 'ग' (अराजपत्रित) पदों के भर्ती नियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त में आएंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अनर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति :—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति :—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड पे	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सहायक	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	(वेतन बैंड-2) रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4200	चयन पद	लागू नहीं	30 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो किन्तु 45 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं होनी चाहिए। अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में नियमानुसार छूट।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	पदोन्नति हेतु—नहीं	2 वर्ष
(ख) सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में 8 वर्ष नियमित सेवा का कार्य अनुभव	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण हेतु—हां	

**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समामेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

(11)	(12)
पदोन्नति द्वारा, ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, ऐसा नहीं होने पर सीधी भर्ती द्वारा	<b>पदोन्नति :</b> प्रवर श्रेणी लिपिक से पदोन्नति जिसकी कम से कम 10 वर्षों की अर्हक सेवा हो अथवा प्रवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड में 10 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ अन्य केन्द्र/राज्य सरकार कार्यालयों से स्थानांतरण द्वारा।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(13)	(14)
नियमों के अनुसार	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. प्रवर श्रेणी लिपिक	तीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	(वेतन बैंड-1) रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2400	अचयन पद	लागू नहीं	आयु 25 वर्ष से कम नहीं तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं

(8)	(9)	(10)
(क) उच्चतर माध्यमिक शालेय प्रमाणपत्र (10+2)	लागू नहीं	2 वर्ष
सरकारी कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र इकाई में कार्य का तीन वर्षों का अनुभव		

(11)	(12)
पदोन्नति द्वारा, ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, ऐसा नहीं होने पर सीधे भर्ती द्वारा	अवर श्रेणी लिपिक से पदोन्नति अथवा केन्द्रीय सरकार कार्यालय से प्रवर श्रेणी लिपिक के स्थानांतरण द्वारा। पदोन्नति के लिए अवर श्रेणी लिपिक ने कम से कम 8 वर्ष अर्हक सेवा अवर श्रेणी लिपिक के रूप में की हो। स्थानांतरण के मामले में सरकारी सेवक ने अवर श्रेणी लिपिक के रूप में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

(13)	(14)
नियमों के अनुसार	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. अवर श्रेणी लिपिक	छह	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	(वेतन बैंड-1) रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1900	लागू नहीं	लागू नहीं	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच। अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विस्थापितों और अन्य विशेष श्रेणियों के मामलों में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य आदेशों के अनुसार छूट।

(8)	(9)	(10)
(क) शैक्षिक अर्हता (10+2)	आयु सीमा - नहीं	2 वर्ष
(ख) टंकण गति : अंग्रेजी में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता - हां	
(ग) संगणक प्रचालन में कौशल होना चाहिए।		

(11)	(12)
सीधे भर्ती द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा	10 प्रतिशत अवर श्रेणी लिपिक के पद रु. 1800 के ग्रेड में कार्यरत कर्मचारियों से भरे जाएंगे, जिनमें विहित शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं होगी तथा जिनकी उस ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा होगी।

(13)	(14)
नियमों के अनुसार	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. आशुलिपिक एक ग्रेड-1	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	(वेतन बैंड-2) रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4200	लागू नहीं	लागू नहीं		आयु 18 से 27 वर्ष के बीच (भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेश अथवा आदेश के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक की छूट) (अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य आदेशों के अनुसार छूट)

(8)	(9)	(10)
आयु - विभागीय उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं शैक्षणिक अर्हताएं - हां (जैसी सीधी भर्ती के लिए लागू है)	लागू नहीं	2 वर्ष

(11)	(12)
पदोन्नति द्वारा, ऐसा नहीं होने पर सीधे भर्ती द्वारा	आशुलिपिक ग्रेड-II से पदोन्नति जिनकी उस ग्रेड में 10 वर्ष की अर्हक सेवा हो।

(13)	(14)
नियमों के अनुसार	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. आशुलिपिक एक ग्रेड-II	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	(वेतन बैंड-1) रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2400	लागू नहीं	लागू नहीं		आयु 18 से 27 वर्ष के बीच (भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेश अथवा आदेश के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक की छूट) (अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य आदेशों के अनुसार छूट)

(8)	(9)	(10)
1. मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।	लागू नहीं	2 वर्ष
2. कौशल परीक्षण मानक श्रुतलेखन : 10 मि. @ 80 शब्द प्रति मिनट लिप्यांतरण : 65 मि. (अंग्रेजी) 75 मि. (हिन्दी) (मेन्युअल टंकण मशीन पर) अथवा 50 मि. (अंग्रेजी), 65 मि. (हिन्दी) (संगणक पर)		

(11)	(12)
कर्मचारी चयन आयोग के जरिए सीधी भर्ती।	लागू नहीं
नोट--पदधारी के प्रतिनियुक्ति में होने अथवा लम्बी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश अथवा अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष अथवा अधिक अवधि में होने के कारण रिक्तियां होती हैं, तो ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के समकक्ष कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरी जाएंगी जो नियमित आधार पर समकक्ष पद पर है तथा सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हैं।	

(13)	(14)
समूह 'ग' स्थायीकरण हेतु विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. उप-अनुदेशक (राहत अभियान)	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	(वेतन बैंड-2) रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4200	चयन सह-वरिष्ठता	लागू नहीं	आयु 35 वर्ष से कम, सरकारी सेवकों के लिए और 5 वर्ष की छूट। अनु. जाति/अनु. जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में भी नियमों के अनुसार छूट।

(8)	(9)	(10)
<b>अनिवार्य :</b>	पदोन्नति के लिए पात्र स्थायी कर्मचारियों के मामलों में आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं लागू नहीं होंगी। अन्य मामलों में भारत सरकार के विवेकानुसार आयु तथा शैक्षणिक अर्हताओं में छूट होगी।	2 वर्ष
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक		
(ख) किसी संगठन में व्यावहारिक शिक्षण/आपात-कालीन निदर्शन संचालित करने का 5 वर्षों का अनुभव।		
बेतार रेडियो सेट्स को चलाने का अनुभव।		
<b>वांछनीय :</b> राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर से नागरिक सुरक्षा अनुदेशक का पाठ्यक्रम।		

(11)	(12)
पदोन्नति द्वारा, ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, ऐसा नहीं होने पर सीधे भर्ती द्वारा।	प्रदर्शक ग्रेड से पदोन्नति, जिनकी ग्रेड में 10 वर्ष की अर्हक सेवा हो

(13)	(14)
नियमों के अनुसार	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. उप-अनुदेशक (सामान्य)	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	(वेतन बैंड-2) रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4200	चयन सह-वरिष्ठता	लागू नहीं	आयु 35 वर्ष से कम, सरकारी सेवकों के लिए और 5 वर्ष की छूट। अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के मामलों में भी नियमों के अनुसार छूट।

(8)	(9)	(10)
<b>अनिवार्य :</b>	पदोन्नति के लिए पात्र स्थायी कर्मचारियों के मामलों में आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं लागू नहीं होंगी। अन्य मामलों में भारत सरकार के विवेकानुसार आयु तथा शैक्षणिक अर्हताओं में छूट होगी।	2 वर्ष
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक		
(ख) किसी संगठन में व्यवहारिक प्रशिक्षण/आपात कालीन निदर्शन संचालित करने का 5 वर्षों का अनुभव।		
बेतार रेडियो सेट्स को चलाने का अनुभव।		
<b>वांछनीय :</b> इलेक्ट्रानिक्स में डिप्लोमा		

(11)	(12)
पदोन्नति द्वारा, ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, ऐसा नहीं होने पर सीधे भर्ती द्वारा।	प्रदर्शकों में से पदोन्नति, जिनकी ग्रेड में 10 वर्ष की अर्हक सेवा हो।

(13)	(14)
नियमों के अनुसार	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. प्रदर्शक	दो	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	(वेतन बैंड-1) रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2400	चयन पद	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से कम, सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष की छूट। अनु. जाति/अनु. जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के मामलों में भी नियमों के अनुसार छूट।

(8)	(9)	(10)
<b>अनिवार्य :</b>	आयु सीमा : नहीं	2 वर्ष
1. उच्चतर मा. शा. प्रमाणपत्र (10 + 2)	अर्हता :	
2. नागरिक सुरक्षा अनुदेशक/डी.आर.आई. योग्यता प्राप्त	क. प्रतिनियुक्ति - हां	
3. होम गार्ड/नागरिक सुरक्षा/अग्नि शमन/सशस्त्र बल में अनुभव		
4. भांडार के रखरखाव में तीन वर्षों का अनुभव		
<b>वांछनीय :</b> राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महा-विद्यालय, नागपुर से सब-ऑफिसर का पाठ्यक्रम		

(11)	(12)
पदोन्नति द्वारा, ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, ऐसा नहीं होने पर सीधे भर्ती द्वारा	ग्रेड में नियमित आधार पर 8 वर्ष की अर्हता के साथ कनिष्ठ प्रदर्शक से पदोन्नति

(13)	(14)
नियमों के अनुसार	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. कनिष्ठ प्रदर्शक	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	(वेतन बैंड-1) रु. 5200-20200+ ग्रेड वेतन रु. 1900	चयन पद	लागू नहीं	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच। (अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के मामलों में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अनुसार छूट)

(8)	(9)	(10)
<b>अनिवार्य :</b>	स्थानांतरण - हां	2 वर्ष

- उच्चतर मा. शा. प्रमाणपत्र (10 + 2)
- नागरिक सुरक्षा अग्निशमन/होम गार्ड में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।
- नागरिक सुरक्षा/अनुदेशक/डी.आर.एस./डब्ल्यू एस.पी. पाठ्यक्रम में अर्हक

**वांछनीय :**

- राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से सब-ऑफिसर का पाठ्यक्रम
- रेडियो संचार में प्रमाणपत्र
- टेलीफोन तथा रेडियो मैकेनिक में 2 वर्ष का अनुभव अथवा नागरिक सुरक्षा अनुदेशक या प्रथमो-पचार में प्रमाणपत्र एवं भांडार के रखरखाव का अनुभव

(11)	(12)
पदोन्नति द्वारा, ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, ऐसा नहीं होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	क्षेत्र प्रशिक्षक से पदोन्नति, इस ग्रेड में नियमित आधार पर 5 वर्ष की अर्हक सेवा होना चाहिए ।

(13)	(14)
नियमों के अनुसार	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. क्षेत्र प्रशिक्षक	छह	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	(वेतन बैंड-1) रु. 5200-20200+ ग्रेड वेतन रु. 1800	लागू नहीं	लागू नहीं	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच । (सरकारी सेवक की सीधी भर्ती के लिए 35 वर्ष तक की छूट) तथा अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के मामलों में नियमों के अनुसार छूट ।

(8)	(9)	(10)
अनिवार्य :	आयु - नहीं	2 वर्ष

1. उच्चतर मा. शा. प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष विज्ञान विषय के साथ

2. शारीरिक मानक : उंचाई 165 से.मी. सीना 81 से. मी. (कम से कम 5 से.मी. फैलाने के साथ), वजन कम से कम 50 कि.ग्रा., किसी नए तथा पुराने रोग के बगैर चिकित्सीय रूप से तन्दुरुस्त, भार के साथ दौड़ने में सक्षम होना चाहिए । चढ़ने, कूदने इत्यादि में भी सक्षम हो । होम गार्ड, भूतपूर्व सैनिकों, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाणपत्र अर्हक को प्रधानता दी जाएगी ।

3. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से नागरिक सुरक्षा/ डी.आर.आई. में अर्हक हो ।

4. होम गार्ड/नागरिक सुरक्षा/अग्नि-शमन सेवा में दो वर्ष का अनुभव अथवा राष्ट्रीय सेवा कोर में प्रमाणपत्र अर्हक हो ।

**वांछनीय :** भारी वाहन चलाने का लाइसेंस रखता हो ।

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	--

(13)	(14)
समूह 'ग' स्थायीकरण हेतु विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	(वेतन बैंड-2) रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4200	लागू नहीं	लागू नहीं	आयु 25 वर्ष से कम (सरकारी सेवक के मामले में 35 वर्ष तक छूट)। नोट-आयु-सीमा निर्धारण की वह तारीख निर्णायक तारीख होगी जो भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख विहित की गई हो (जो अंदमान निकोबार द्वीपों तथा लक्षद्वीप के अलावा हैं)

(8)	(9)	(10)
अनिवार्य :	लागू नहीं	2 वर्ष
1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक		
2. पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र		
वांछनीय : पुस्तकालय में कार्य करने का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव		

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण, ऐसा नहीं होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार कार्यालयों में समकक्ष पद में हो अथवा पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर में अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में कार्यरत हो। तथा कॉलम 8 में विहित अर्हताएं रखता हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य तौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

(13)	(14)
नियमों के अनुसार	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. कनिष्ठ आर्टिस्ट ग्रेड-II	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	(वेतन बैंड-1) रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2400	चयन पद	लागू नहीं	आयु 28 वर्ष से कम, अनु. जाति/ अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विस्थापित व्यक्तियों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के मामलों में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य आदेशों के अनुसार आयु-सीमा में छूट होगी।

(8)	(9)	(10)
(1) 10+2 (उच्चतर माध्यमिक शालेय प्रमाणपत्र	लागू नहीं	2 वर्ष
(2) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा के साथ ललित कला में स्नातक।		
वरीयता : फोटोग्राफी में प्रविणता, आर्टिस्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव।		



(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा अथवा अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों से स्थानांतरण द्वारा	अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों से स्थानांतरण पर

(13)	(14)
<b>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति :</b>	लागू नहीं
उप निदेशक	—अध्यक्ष
प्रशासनिक अधिकारी	—सदस्य
सहायक निदेशक	—सदस्य
उप सहायक निदेशक	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. ड्राईवर मैकेनिक एक ग्रेड-II	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-अनुसूचित	(वेतन बैंड-1) रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2400	चयन पद	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से कम, अनु. जाति/ अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विस्थापित व्यक्तियों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के मामलों में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य आदेशों के अनुसार आयु-सीमा में छूट होगी।	

(8)	(9)	(10)
<b>अनिवार्य :</b>	आयु—नहीं	2 वर्ष
1. (10+2) (उच्चतर माध्यमिक शालेय प्रमाण-पत्र)		
2. भारी वाहन चलाने का लाइसेंस धारक		
3. सरकारी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ऑटोमोबाइल में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के साथ में मान्यता-प्राप्त वर्कशॉप से 5 वर्ष का अनुभव व ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।		
<b>वांछनीय :</b> सभी प्रकार के अग्निशमन तथा बचाव संबंधी उपकरणों की मरम्मत व रखरखाव की क्षमता हो।		

(11)	(12)
शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, ऐसा नहीं होने पर सीधे भर्ती द्वारा।	ड्राईवर मैकेनिक (सामान्य ग्रेड) से पदोन्नति, इस ग्रेड में 8 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ।
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. ड्राईवर मैकेनिक तीन (सामान्य ग्रेड)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	(वेतन बैंड-1) रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1900	लागू नहीं	लागू नहीं	आयु 28 वर्ष से कम, अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विस्थापित व्यक्तियों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के मामलों में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य आदेशों के अनुसार आयु-सीमा में छूट होगी ।	

(8)	(9)	(10)
<b>अनिवार्य :</b>	विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु तथा शैक्षणिक	2 वर्ष
1. मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	अर्हताओं में छूट	
2. वाहन यंत्रणा का ज्ञान		
3. भारी तथा हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस धारक		
3. भारी तथा हल्के वाहन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव		

(11)	(12)
सीधे भर्ती, विभागीय पात्र कर्मचारी भी परीक्षण में हिस्सा ले सकते हैं।	केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों से स्थानांतरण

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. बहु-कार्य सत्ताईस कर्मचारी	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	(वेतन बैंड-1) रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1800	लागू नहीं	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच।	नोट : भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख ही आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख होगी। (वह तारीख नहीं होगी जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहोल व स्पीति जिला तथा चम्बा-जिला के उप-संभाग पांगी, अंदमान व निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के लिए अंतिम तारीख विहित की गयी हो) रोजगार कार्यालय से की गई भर्ती के मामले में, वह तारीख आयु-सीमा निर्धारण की अंतिम तारीख होगी जो जिस पर रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया हो।

(8)	(9)	(10)
1. मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं	2 वर्ष
(11)	(12)	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	
(13)	(14)	
समूह 'ग' स्थायीकरण पर विचार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं	

[ फा. सं. 2202/टी ए/आर आर ]

जी. एस. सैनी, निदेशक

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**  
**(National Civil Defence College)**  
Nagpur, the 23rd August, 2010

**G.S.R. 138.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Group 'C' in the National Civil Defence College, Nagpur, namely :

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Civil Defence College, Nagpur, Group 'C' (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

**2. Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 14 of the Scheduled annexed to these rules.

**3. Method of Recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

**4. Disqualifications :—**No person;

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts :—

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from operation of this rule.

**5. Power to relax .**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Class, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit of Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Assistant	One	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	(PB-2) Rs. 9300- 34800 + Grade Pay Rs. 4200	Selection Post	Not applicable	Must have completed 30 years, but must not have completed 45 years. Relaxable in the case of SC/ST/OBC as per rules.

Educational and other qualifications required for Direct Recruitment				Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
(8)				( 9 )		(10)	
(a) A graduate of a recognized University				No—for promotion		2 years	
(b) Experience of working in a Government/PSU office minimum 8 years regular service.				Yes—for transfer on deputation			
Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various method				In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made			
(11)				(12)			
By promotion, failing which by transfer on Deputation, failing which by Direct Recruitment.				<b>Promotion :</b> Promotion from Upper Division Clerk with a minimum period of 10 years qualifying service. OR By transfer from Central/State Govt. Offices with the 10 years regular service Upper Division Clerk grade			
If a D.P.C. exists, what is its composition				Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment			
(13)				(14)			
As per the rules				Not applicable.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2. Upper Division Clerk	Three	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	(PB-1) Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection Post	Not applicable	Not below 25 years and not above 35 years.	
(8)				(9)		(10)	
(a) HSSC (10+2) Experience minimum period of 3 years, working in the office of Government/PSU				Not applicable		2 years	
(11)				(12)			
By promotion, failing which by Deputation failing which by Direct Recruitment				<b>Promotion :</b> Promotion from Lower Division Clerks or by transfer of Upper Division Clerks from Central Government Offices. OR For promotion a Lower Upper Division Clerk should have put in a minimum 8 years qualifying service as Lower Division Clerk. In the transfer the Government servant should have put in 8 years regular service as Lower Division Clerk.			
(13)				(14)			
As per the rules				Not applicable			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Lower Division Clerk	Six	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	(PB-1) Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 1900	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years. Relaxable in the case of SC/ST/OBC displaced persons and other special categories according with the general orders issued from item to time by Government of India.

(8)	(9)	(10)
(a) Educational Qualification : 10 + 2	Age : No	2 years
(b) Typing Speed : At least 30 words per minute in English	Educational & other Qualification : Yes	
(c) Must have Computer Operating Skills.		

(11)	(12)
By Direct Recruitment or by transfer	10 percent of L.D.C. post to be filled up from the employees working in Grade Pay Rs. 1800. Employees possessing prescribed educational & other qualifications. Five years regular service in their respective grade.

(13)	(14)
As per the rules	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Steno-grapher Grade-I	One	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	(PB-2) Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with intructions or order issued by the Central Government)  (Relaxable in the case of SC/ST/OBC in accordance with the general orders issued from time to time by the Central Government)

(8)	(9)	(10)
Age : Not applicable for Departmental Candidates. Educational & other Qualification : Yes (as applicable for Direct Recruitment.)	Not applicable	2 years

(11)	(12)
By promotion failing which by Direct Recruitment.	Promotion from Stenographer Grade-II with 10 years qualifying service in the grade.

(13)	(14)
As per the rules	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Steno-grapher Grade-II	One	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	(PB-1) Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with intructions or order issued by the Central Government)  (Relaxable in the case of SC/ST/OBC in accordance with the general orders issued from time to time by the Central Government)

(8)	(9)	(10)
(i) 12th class pass or equivalent from a recognized Board or University. (ii) <b>Skill Test Norms</b> — <b>Dictation</b> : 10 mts @80w.p.m.  <b>Transcription</b> : 65 mts.(Eng.) 75 mts.(Hindi) (on Manual Typewriter) or 50 mts.(Eng.). 65 mts. (Hindi) (or Computer)	Not applicable	2 years

(11)	(12)
Direct Recruitment through Staff Selection Commission <b>Note</b> : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous post on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruitment.	Non applicable

(13)	(14)
Group 'C' DPC for confirmation	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Sub-Instructor (Relief Operations)	One	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	(PB-1) Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 4200	Selection-cum-Seniority.	Not applicable	Below 35 years Relaxable by another 5 years for a Government Servant. Also relaxable in the case of SC/ST/OBC as per rules.

(8)	(9)	(10)
<b>Essential :</b> (a) Graduate of a recognized University. (b) 5 years experience in conducting practical training/demonstration of emergency operation in any Organization. Experience of handling wireless Radio Sets.	Age and educational qualifications will not apply in the case of permanent employees eligible for promotion. In other cases age and educational qualifications will be relaxable at the discretion of the Government of India.	2 years
<b>Desirable :</b> Civil Defence Instructor Course from National Civil Defence College, Nagpur.		

(11)	(12)
By promotion, failing which by Transfer on deputation, failing which by Direct Recruitment.	Promotion from Demonstrators with 10 years qualifying service in the grade.
(13)	(14)
As per the rules	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Sub-Instructor (General)	One	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	(PB-1) Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 4200	Selection cum-Seniority.	Not applicable	Below 35 years (Relaxable by another 5 years for a Government Servant. Also relaxable in the case of SC/ST/OBC as per rules.

(8)	(9)	(10)
<b>Essential :</b> (a) Graduate of a recognized University. (b) 5 years experience in conducting practical training/demonstration of emergency operation in any Organization. Experience of handling wireless Radio Sets.	Age and educational qualifications will not apply in the case of permanent employees eligible for promotion. In other cases age and educational qualifications will be relaxable at the discretion of the Government of India.	2 years
<b>Desirable :</b> (a) Diploma in Electronics.		

(11)	(12)
By promotion, failing which by Transfer on deputation, failing which by Direct Recruitment	Promotion from Demonstrators with 10 years qualifying service in the grade

(13)	(14)
As per the rules	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Demonstrator TwoG	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	(PB-1) Rs. 5200- 20200 + Grade Pay Rs. 2400	Selection Post	Not applicable		Below 30 year with 5 years relaxable to Government Employees. Also relaxable in the case of SC/ST/OBC as per rules.

(8)	(9)	(10)
<b>Essential :</b> (1) HSSC (10+2) (2) Qualified in CDI/DRI (3) Experience in Home Guard/ CD/Fire/Armed Forces. (4) Three years of experience in a Maintenance of Store.	Age : No <b>Qualification :</b> (a) Deputation — Yes	2 years
<b>Desirable :</b> Sub-Officer Course from National Fire Service College, Nagpur.		

(11)	(12)
By promotion, failing which by Transfer on deputation, failing which by Direct Recruitment	Promotion from a Junior Demonstrator with eight years qualifying service in the grade on regular basis

(13)	(14)
As per the rules	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Junior Demonstrator	One General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	(PB-1) Rs. 5200- 20200 + Grade Pay Rs. 1900	Selection Post	Not applicable		Age between 18 to 25 years. Relaxable in the case of SC/ST/OBC, in accordance with the general orders issued from time to time by Government of India.

(8)

(9)

(10)



**Essential :**

Transfer : Yes

2 years

- (1) 10+2 (HSSC)  
 (2) Minimum 5 years experience  
 in CD/Fire/HG  
 (3) Qualified in CDI/DRS/  
 WSP Course.

**Desirable :**

- (1) Sub-Officer Course from N.F.S.C.,  
 Nagpur.  
 (2) Certificate in Radio Communication.  
 (3) Telephone and Radio Mechanic with  
 2 years experience OR CDI or First Aid  
 Certificate and Experience Store  
 Maintenance.

(11)

(12)

By promotion, failing which by Transfer on  
 deputation, failing which by Direct Recruitment.

Promotion from Field Trainer should have  
 put in a 5 yrs qualifying service in the grade  
 on regular basis or by transfer from other  
 Central/State Govt. Offices.

(13)

(14)

As per the rules

Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Field Trainer	Six	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	(PB-1) Rs. 5200- 20200 + Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	Not applicable	Age between 18 to 25 years. (Relaxable upto 35 years for Direct Appointment for Govt. Servant) and also re- laxable in the case of SCs/ STs/OBCs as per rules.

(8)

(9)

(10)

(i) HSSC or equivalent pass with  
 science subject.  
 Physical Std.: Height — 165cms.  
 (Chest—81 cms (min), with an  
 Expansion 5cms, Weight—50kg  
 (min)  
 Medically fit without organic &  
 Chronic diseases. Should able to  
 run with load, capable of climbing,  
 jumping etc. Preference is given to  
 Home Guards, Ex-Servicement, NCC  
 certificate holders.

Age — No

2 years

(ii) Qualified in CDI/DRI/Fire

(8)

Fighting Course from any  
recognized Institute.

(iii) Two years experience in HG/  
CD/FS OR NCC 'C' Certificate  
qualified.

**Desirable :** Possess Heavy Vehicle  
driving licence.

(11)

(12)

By Direct Recruitment

—

(13)

(14)

Group 'C' DPC for confirmation

Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Library and Information Assistant	One	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	(PB-1) Rs. 9300- 34800 + Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Below 25 years. (Relaxable upto 35 yrs. In Case of a Govt. Servant.) <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)

(8)

(9)

(10)

**Essential :—**

(i) Graduate of a recognized  
University.

(ii) Diploma or certificate in  
Library Science.

**Desirable :** One year's practical  
experience of work in a Library.

Not applicable

2 years

(11)

(12)

Transfer on deputation failing which by Direct Recruitment **Transfer on deputation :**

Persons holding analogous or equivalent posts in Central  
Government Offices or Lower Division Clerks at National Civil  
Defence College with five years regular service in the grade  
and possessing qualifications prescribed under Column 8.

(Period of deputation in ordinary not exceeding three  
years).

(13)

(14)

As per the rules

Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. Junior Artist One Grade-II	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	(PB-1) Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400	Selection Post	Not applicable	Below 25 years. (Relaxable in the case of SC/ST/OBC and other special categories in accordance with the general orders issued from time to time by the Government of India.	

(8)	(9)	(10)
(i) 10+2 (HSSC)	Not applicable	2 years
(ii) Degree in Fine Arts with Drawing from a recognized university.		
<b>Preference :</b> Proficiency in Photography in one year experience as an Artist.		

(11)	(12)
By direct recruitment or by transfer from other Central/State Govt. offices.	Transfer from other Central/State Govt. offices.

(13)	(14)
<b>Group 'C' D.P.C. :—</b> Deputy Director Administrative Officer Assistant Director Dy. Assistant Director	Not applicable.
—Chairman —Member —Member —Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. Driver Mechanic Grade-II	One	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	(PB-1) Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400	Selection post	Not applicable	Below 30 years. (Relaxable in the case of SC/ST/OBC in accordance with the general orders issued from time to time by the Government of India.

(8)	(9)	(10)
<b>Essential :</b>	Age—No	2 years
(i) 10+2 (HSSC)		
(ii) Heavy Vehicle driving license holder.		
(iii) Certificate Course from Govt. recognized ITI in Automobile Trade with 5 years experience in a recognized		

(8)

workshop or 3 years Diploma in Automobile Engineering.

**Desirable :**

(1) Should be able to repair & maintain all kinds of Fire and Rescue Equipment.

(11)

Hundred per cent promotion failing which by Direct Recruitment.

(12)

Promotion from Driver Mechanic (Ordinary Grade) with eight years qualifying service in the grade.

(13)

**Group 'C'** Departmental Promotion Committee

(14)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. Driver Mechanic (Ordinary Grade)	Three	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	(PB-I) Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 1900	Not applicable	Not applicable	Below 28 years. (Relaxable in the case of SC/ST/OBC Displaced persons and other special categories in accordance with the general orders issued from time to time by Government of India.

(8)

(1) Matriculation or equivalent  
(2) Knowledge of Vehicle Mechanism.  
(3) Holding Driving license for heavy and light duty vehicles.  
(4) Three years experience of driving heavy & light duty vehicles.

(9)

Age and educational qualifications are relaxable for the Departmental candidates.

(10)

2 years

(11)

By Direct Recruitment eligible departmental candidates can also appear in the test.

(12)

Transfer from other Central/State Government offices.

(13)

**Group 'C'** D.P.C.

(14)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. Multi-Tasking Staff	Twenty Seven	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	(PB-I) Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	Not applicable	Between 18 years and 25 years of age. <b>Note :</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed

(7)		
for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of J&K State, Lahual & Spiti district and Pangri Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).		
In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the employment Exchange is asked to submit the name.		
(8)	(9)	(10)
(i) Matriculation or equivalent pass.	Not applicable	2 years
(11)	(12)	
By Direct Recruitment	Not applicable	
(13)	(14)	
Group 'C' DPC for considering confirmation.	Not applicable.	
[F. No. 2202/TA/RR]		
G. S. SAINI, Director		

### विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 139.—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा संरक्षण (जांच करने की रीति) नियम, 2009 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण (जांच करने की रीति) संशोधन नियम, 2010 है ।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. ऊर्जा संरक्षण (जांच करने की रीति) नियम, 2009 के नियम 3 के उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(8) जांच की समाप्ति पर, न्याय निर्णायक अधिकारी अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और यदि अपने निष्कर्षों के आधार पर उसका यह समाधान हो जाता है कि व्यक्ति, धारा 26 की उपधारा के खंडों के किसी उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है,

वह धारा 27 की उपधारा (2) के उपबंधों का अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।”

[फा. सं. 10/3/08-ईसी]

देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :—** मूल नियम संख्यांक सा.का.नि. 25, तारीख 25 फरवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

### MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 25th August, 2010

**G.S.R. 139.**—in exercise of the powers conferred by Section 56 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Energy Conservation (Manner of holding inquiry) Rules, 2009, namely :—

1. (1) These rules may be called the Energy Conservation (Manner of holding inquiry) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Energy Conservation (Manner of holding inquiry) Rules, 2009, for sub-rule (8) in rule 3, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(8) On completion of inquiry, the adjudicating officer shall record his findings and if he is satisfied on the basis of his findings that the person has failed to comply with the provisions of any of the clauses of sections specified in section 26, he may imposed penalty as per the provisions of sub-section (2) of section 27.”

[F. No. 10/3/08-EC]

DEVENDER SINGH, Jt. Secy.

**Footnot.**—The principal rules were published vide number G.S.R. 25 dated the 25th February, 2009.